

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 1972/भाद्र 11, 1894

No. 395]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1972/BHADRA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलज संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September 1972

S.O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Bihar in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 30th November, 1972.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Hay.
- (ii) Bhusa.
- (iii) Jowar.
- (iv) Karab or Karbi or Kadbi.
- (v) Grass.
- (vi) Paddy Straw.
- (vii) Concentrates, viz., Bye-products of all Pulses, Crushed Dal, Maize. Wheat Bran, Oats and Jowar.
- (viii) Oil Cakes.

[No. 24-6/72-L.D.III.]

V. P. GULATI, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

का० प्रा० 574(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने के लिए, उसे प्रवृत्त शक्तियाँ, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रयोक्तव्य होगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 30 नवम्बर, 1972 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

- (i) सूखी घास
- (ii) भूसा
- (iii) ज्वार
- (iv) करब या कर्बी या कडवी
- (v) घास
- (vi) धान का पुआल
- (vii) गतिव, अर्थात्, सभी दालों के उपोत्पाद, दली हुई दाल, मक्का, गेहूँ का चोकर, जौ और ज्वार
- (viii) खली

[सं० 24-6/72-एल० डी० III]

बी० पी० गुलाटी, उप सचिव, ।